



# EFSLE [Ecosophical Foundation for the Study of Literature and Environment]

(*LEGH Movement- Literature, Environment, Gender and Human Rights*)

[Incorporated in the Ministry of Corporate Affairs, Govt. of India with  
CIN No. U80904DL2019NPL348560 and PAN No. AAFCE4482L]

F. No. EFSLE-COV1/05/21/H

May 18, 2021

## अधिसूचना

### ईएफएसएलई (EFSLE) कोविड राहत अभियान

पूरी दुनिया पिछले वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 से गुजर चुकी है। इसके दूसरे चरण में भारत सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक रहा है जहाँ अब तक अप्रत्याशित मौतें हुईं। हम सभी डर, ट्रॉमा और अनिश्चितता के भयावह दौर से गुजर रहे हैं। विशेष रूप से, ऐसे कामगार जिनका जीवन पूरी तरह से दैनिक मजदूरी पर निर्भर था। प्रतिदिन होने वाली आय पर निर्भर इनका जीवन कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। ये स्थिति दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में और भी भयावह है क्योंकि प्रवासी मजदूर यहाँ बड़ी संख्या में हैं। अनिश्चितकालीन लॉकडाउन के कारण उनका जीवन ताक पर है क्योंकि उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं रहा।

समय की मांग को देखते हुए, ईएफएसएलई ने अपने एक विशेष अभियान के तहत ऐसे परिवारों के लिए कुछ उम्मीद लाने का निश्चय किया है, ताकि उनके बच्चे और उनके परिवार के बाकी सदस्य भूखे पेट न सो सकें।

हालांकि, हमारा प्राथमिक उद्देश्य हमेशा से 'पर्यावरण' ही रहा है, किंतु, यह समय ऐसे संकट का है जब बहुतों का जीवन अधर में है और ये उनके जीवन-अस्तित्व का सवाल है। (वैसे भी मानव-जीवन से सम्बद्ध मुद्दे हमारे पारिस्थिकी तंत्र का एक अहम विषय है)

अतएव, ईएफएसएलई प्रारंभ में दक्षिणी दिल्ली के विभिन्न स्थानों में 200 परिवारों का लक्ष्य बनाते हुए **कच्चे खाद्य सामग्री (राशन) वितरण अभियान** की शुरुआत करती है। ईएफएसएलई ने कम-से-कम तीन महीने - जून, जुलाई और अगस्त 2021 तक खाद्य सामग्री वितरित करने की योजना बनायी है।



**EFSLE**

Reg. Off. 143/9, First Floor, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi- 110070

Website: [www.efsle.org](http://www.efsle.org)

Email: [infoefsle@gmail.com](mailto:infoefsle@gmail.com)

Contact: 9891242768 / 9873633301

इस अभियान के अंतर्गत निम्नांकित क्षेत्रों के परिवार शामिल होंगे:

1. मुनिरका झुग्गी-झोपड़ी
2. बसंत गाँव
3. मसूदपुर
4. मेहरौली
5. हौज़ रानी
6. अधचिनी
7. बेगमपुर
8. कटवारिया सराय
9. कालू सराय
10. किशनगढ़

हमारे स्वयंसेवक उपरोक्त स्थानों पर हरेक दरवाजे पर जाएँगे और सभी जरूरतमंदों को राशन के पैकेट देंगे। प्रत्येक स्थानों पर ये स्वयंसेवक 2-3 की संख्या में सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए, मास्क और दस्ताने पहने तथा रु. 1000/- प्रति परिवार के अतिरिक्त मूलभूत सभी वस्तुओं जैसे, चावल, आटा, दाल, तेल, मसाले, नमक और अन्य अनिवार्य वस्तुओं के अच्छी तरह से सैनीटाईज किये गये राशन के पैकेट लेकर जाएँगे।

निम्नांकित लक्ष्य समूहों के परिवार इस अभियान के लाभ ले सकेंगे:

- प्रवासी श्रमिक
- निर्माण कार्य वाले कामगार
- दैनिक मजदूरी भोगी

निस्संदेह, यह एक बड़ा दायित्व और एक बड़ी चुनौती भी होगी। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग की जरूरत है। इस महामारी के समय में हम यह समझते हैं कि हम सभी के लिए बड़ी राशि देना संभव नहीं होगा। इसलिए, ऐसे उचित काम के लिए निम्नांकित स्लैब में से किसी भी राशि का चयन करते हुए अपने सामर्थ्य के भीतर योगदान देना सबके लिए आसान होगा:



- A. ₹200 - ₹499  
B. ₹500 – ₹999  
C. ₹1000 & Above

कहते हैं कि बूँद-बूँद से ही सागर भरता है। आपके इस छोटे से योगदान से आपका कद समाज में बहुत बड़ा बनेगा। बस हमें खुद को तैयार करना होगा और ये विश्वास खुद में पैदा करना होगा कि हम सभी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं जो अकेले कभी संभव नहीं होगा।

प्रिय मित्रों, यह चरम समय है। हमारे साथ जुड़ें और उन सबकी सबसे मूलभूत जरूरतों (अर्थात् भोजन) को पूरा करें, जो इस महामारी के कारण वंचित रह गये और जो भूखमरी के कगार पर खड़े हैं।

योगदानकर्ता हमारे संगठन के अकाउंट में ऑनलाइन ट्रांसफर (Online Transfer) कर सकते हैं। विवरण नीचे दिए गये हैं:

**खाता सं. (Account No): 103705500395**

**Ecosophical Foundation for the Study of Literature and Environment**

**Bank Name: ICICI Bank**

**IFSC Code: ICIC0001037**

यूपीआई ट्रांसफर (UPI Transfer) के माध्यम से: QR कोड को स्कैन करें:



**EFSLE**

Reg. Off. 143/9, First Floor, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi- 110070

Website: [www.efsle.org](http://www.efsle.org)

Email: [infoefsle@gmail.com](mailto:infoefsle@gmail.com)

Contact: 9891242768 / 9873633301

पेटीएम (Paytm) के माध्यम से:

**9873633301**

(ऋषिकेश कुमार सिंह - संस्था के अकाउंट से लिंक)

हमारे बैंक अकाउंट के वेबपेज का विवरण इसप्रकार है: यहाँ भी QR कोड को स्कैन करके पैसे ट्रांसफर किये जा सकते हैं.

<http://www.efsle.org/efsle-account-detail/>

टिप्पणी: भुगतान के बाद यदि आप भुगतान की रसीद चाहते हैं, तो हमारे

**व्हाट्सएप सं. (WhatsApp No): 9891242768**

पर अनुरोध भेजें.

हमारे व्हाट्सएप सं. पर भुगतान का स्क्रीनशॉट (Screen Shot) शेयर करें. बैंक अकाउंट में भुगतान प्राप्त के तुरंत बाद आपको रसीद प्राप्त होगी.

**मानवता की दिशा में कुछ सराहनीय कदम**



**EFSLE**

Reg. Off. 143/9, First Floor, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi- 110070

Website: [www.efsle.org](http://www.efsle.org)

Email: [infoefsle@gmail.com](mailto:infoefsle@gmail.com)

Contact: 9891242768 / 9873633301